


NCML Ber. Pul. Ud. Jffer tower I Bwing stp floor
Post No 3 see 29 Gungam hangang

00005

बमोद श्रीमद. श्रीमदसुब
डा रोमकठाल कोषाचार
बस्ती



104249 A

104249 A

Y

104249 A





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

764668

चौहद्दी :-

पूरब:- आराजी गाटा सं० 19

पश्चिम:- आराजी गाटा सं० 3

उत्तर:- आराजी गाटा सं० 9

दक्षिण:- आराजी गाटा सं० 11

यह विक्री विलेख उपनिबन्धक भानपुर जिला बस्ती दिनांक 26.12.17 के इस दिवस को तैयार और निष्पादित किया जाता है।

के मध्य

गंगा प्रसाद पुत्र रामलौट निवासी ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती एतद्वारा जिसे विक्रेता/प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ और उनके सम्बन्धित उत्तराधिकारी, वारिस, प्रशासक, निष्पादक, वकील और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे। मो० नं०- 67-65-43-5908

और

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रालि० जो कि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है जिसका पंजीकृत कार्यालय -IFFCO Tower- 1, B-Wing 5th Floor, Plot No. 3, Sector 29, Gurgaon, Haryana- 122001 है के द्वारा बोर्ड रेजोल्यूशन दिनांक 30 जनवरी 2017 एवम् आथॉरिटी लेटर दिनांक 15 दिसम्बर 2017 के द्वारा श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल को क्रेता के रूप में प्रतिनिधित्व करने हेतु अधिकार पत्र प्रदान किया गया है अतः श्री सुनील चौरसिया पुत्र श्री मनोहर लाल उक्त विक्रय विलेख में क्रेता/द्वितीय पक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एतद्वारा जिन्हें "क्रेता" के रूप में संदर्भित किया जाता है (जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रति प्रतिकूल न हो, जिसका अर्थ में उनके उत्तराधिकारी, प्रशासक, और हस्तांतरिती आदि शामिल होंगे) मो० नं०-9205590148



21/1/2017



4000

3



7





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

764669

चूंकि तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्वामित्व/अधिकारों के राजस्व रिकार्ड के अनुसार, खाता खतौनी सं० 14 के गाटा सं० 10 रकबा 0.084 हे०, विक्रित रकबा 0.084 हे० का सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित मौजा कैथवलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के मूल स्वामी प्रथम पक्ष है तथा विक्रेता अपने निज हिस्से की भूमि ही विक्रय कर रहा है।

और चूंकि एतदवारा विक्रेता के बीच यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार उपरोक्त भूमि को बेचने पर सहमति हुई है, और आगे भी उपरोक्त भूमि के लिए इस अंतिम बिक्री विलेख निश्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं। विक्रेता उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा भविष्य में दायर किये जाने वाले किसी भी प्रकार के दावे, मांग, अभियोग और/या कानूनी कार्यवाही के खिलाफ वर्तमान क्रेता को उसके मालिकाना अधिकारों और बिक्रीयोग्य स्वत्वाधिकार की क्षतिपूर्ति करेगा।

और चूंकि यहां विक्रेता के पास अपनी उपरोक्त संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व, कब्जा और निवास के पूर्ण अधिकार, स्वत्वाधिकार और हित प्राप्त हैं। वर्तमान विक्रेता के नाम भूमि अधिकारों के राजस्व/चकबन्दी रिकार्ड में दर्शाए गये हैं। उपरोक्त संपत्ति सभी शुल्क/प्रमारों से मुक्त है और विक्रेता के अधिकार मान्य, स्पष्ट, बिक्री योग्य और हस्तांतरणीय है और वह कानून के तहत प्रदान किये गये तरीके से उसी तरह से निपटने की हकदार हैं (जिसमें वर्तमान खरीदार को उसे बेचना शामिल है) निम्न दी गई परिस्थितियों और शर्तों और नियमों के अंतर्गत:-

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि वह किसी आदिवासी/जनजातीय/अनुसूचित जाति या किसी भी अन्य जाति या पंथ से संबंधित नहीं है, जिसके अंतर्गत खरीदार के पक्ष में उपरोक्त संपत्ति कानून के अंतर्गत हस्तांतरण करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी तटीय नियमों, आरक्षण, ग्राम समाज की जमीन तालाब, जंगल, खनन अधिग्रहण आदि के कोई प्रावधान कभी भी उसपर लागू नहीं हुए हैं और उपरोक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी अध्यादेश, अधिनियम, अनुच्छेद, नियम और विनियमों (राज्य या केंद्रीय) के तहत कोई अधिसूचना जारी/प्राप्त



Guni



गंगा धारा



NCML BASTI PRIVATE LTD. Ifsc tower-I
B-wing, 5th floor, plot No-3, Sector-29
Gurgaon Haryana, - 122001



Handwritten signature and stamp in red ink.

998487

998487

Handwritten text in Hindi, likely a letter or report, starting with 'प्रति सम्माननीय' (Respected Sir/Madam).

Handwritten signature in black ink.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

764670

नहीं की गई है जिसके अंतर्गत विक्रेता खरीदार को कथित संपत्तियों की बिक्री या निपटान से रोका गया है।

और चूंकि विक्रेता ने क्रेता को अभिकथन और आश्वस्त किया है कि उपरोक्त संपत्ति के संबंध में कोई अभियोग या अन्य प्रकार की कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है। विक्रेता ने यह घोषित किया है कि कथित संपत्ति सभी लेनदेन व भार/बंधक से मुक्त, बिक्री योग्य और प्रसाररहित है और विक्रेता एकमात्र व्यक्ति है जो उस संपत्ति का पूर्ण हकदार है और विक्रेता क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिये भी सहमत है और खरीदार, उसके निष्पादकों, उत्तराधिकारियों, प्रशासकों और हस्तांतरितीयों को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही, दावे, नुकसान, मुकदमे, लागत और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार को उन किसी अन्य व्यक्ति के दावों के परिणामस्वरूप खर्च करना या भुगतान करना पड़ सकता है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, खरीदार खाता खतौनी सं 14 के गाटा सं 10 रकबा 0.084 हे० स्थित मौजा कैथवलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है जोकि विक्रेता अग्रिम रुपये 10,11,886/- मौद्रिक प्रतिफल व रूप में (रुपये दस लाख ग्यारह हजार आठ सौ छियासी केवल) के एवज में खरीदने के लिये सहमत हो गया है जिसकी कीमत 48,75,000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से 0.084 हे० का मूल्यांकन मु० 10,11,886/- रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से मु० 50,600/- रुपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है।

और चूंकि विक्रेता द्वारा दिए गए वचन प्रतिनिधित्व और आश्वासन के आधार पर निर्भर करते हुए, भूमि खरीद की प्रतिफल राशि क्रेता द्वारा विक्रेता को निम्नानुसार भुगतान कर दी गई है:

नाम	बैंक का नाम	राशि	डि०डि० नं०/यू०टी०आर० नं०	दिनांक
गंगा प्रसाद	यस बैंक गोरखपुर उ०प्र०	10,11,886/-	127070	21.12.2017

गंगा प्रसाद



Guni

NCML Batti Private Ltd. Isfco tower-I,
B-wing, 5th floor, plot No-3, Sector-29
Gurgaon Haryana-122001



1
Batti
CTO-BATTI

078497 078497

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 437643

विक्रेता द्वारा इस बिक्री विलेख के निष्पादन से पहले उपरोक्त वर्णित भुगतान की प्राप्ति की पुष्टि कर दी गई है।

और चूंकि खरीदार ने अब विक्रेता को इस बिक्री विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया है, जिसे विक्रेता इसके आगे जिस प्रकार प्रस्तुत किया है सहमत हो गया है;

अब यह विक्रय विलेख साक्ष्य है कि खरीदार इस बिक्री विलेख के निष्पादन पर या उससे पहले विक्रेता को उपरोक्त प्रतिफल राशि की पूर्ण और अंतिम स्वीकृत प्रतिफल देय राशि का भुगतान कर दिया, विक्रेता की ओर से भूमि और उसका प्रत्येक हिस्सा, खरीदार के पक्ष में हमेशा के लिये विमुक्त, रिलीज और डिस्चार्ज करना होगा जिसमें उसके पेड़, फसलें, कुआं, द्यूब/बोर-वेल, कोई भी संरचना या कुछ भी ऐसा जो वहां पर स्थायी रूप से स्थापित हैं, और किसी भी प्रकार की कोई उत्पादित वस्तु जो कुछ भी है जो निष्पादन तारीख तक कथित संपत्ति पर उपलब्ध है जिसके, मालियत परस्टाम्पशुल्क अदा किया गया है तथा इस विक्रय पत्र पर वर्णित होगा विक्रेता एतद्वारा खरीदार को हमेशा के लिए में कृषि भूमि जिसका खाता खतौनी सं० 14 के गाटा सं० 10 रकबा 0.084 हे० स्थित मौजा कैधवलिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती में स्थित है उसकी अनुमति, बिक्री, हस्तांतरित और भरोसा, सभी, नालियों, रास्ते, मार्ग, विशेषाधिकार, भोगाधिकार, लाभ, फायदों, अधिकारों, सदस्यों और साजों सामान के साथ, कथित संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी है या उसके साथ उसका जो भी सरोकार है या उसी के साथ या अब उसके किसी भाग को या अब तक किसी भी समय जो उसके पास है, जिसका उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके कब्जे में है या जिसका वह आनंद उठा रहा है या प्रसिद्ध या हिस्से के रूप में जाना जाने वाला भाग या कथित संपत्ति को समस्त विलेख, दस्तावेजों, लिखित कागजात, वाउचर और कथित संपत्ति के स्वामित्व के अन्य साक्ष्यों के साथ या उसका कोई हिस्सा और सभी एस्टेट, अधिकार, मालिकाना, हित, उपयोग, विरासत, संपत्ति, कब्जा, लाभ, दावा और मांग के साथ जो कुछ भी कानूनन और विक्रेता के इस संपत्ति पर या उसके अंश पर हैं या उनका कोई भाग रखने के लिये है या रोकने के लिये है वे सभी या उनमें से कोई एक कथित संपत्ति को एतद्वारा स्वीकृति देता है, बताता है और आश्वस्त करता है या इरादा या अभिव्यक्त करता है जो उनके साथ होना चाहिए और उसके प्रत्येक अधिकार, सदस्य और साजों सामान, को खरीदार के इस्तेमाल और लाभ के लिये



गंगाधर साहू

Suni

A circular library stamp from the University of Toronto Libraries. The text "UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES" is arranged in a circle around the date "1964". In the center, there is a small emblem featuring a book and a torch.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 437644

स्वीकृति, बिक्री, हस्तांतरण और आश्वासन प्रदान करता है हमेशा किराया, दर, कर, मूल्यांकन, देयता और कर्तव्यों के अधीन खरीदार पर लगाए जाएंगे और वे या इसके बाद सरकार या स्थानीय ग्राम पंचायत या इस संपत्ति से संबंधित किसी अन्य सार्वजनिक निकाय को देय होंगे और विक्रेता यहां इसके बाद अपने स्वयं को, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों और प्रशासकों को, खरीदार को वचन देता है कि विक्रेता द्वारा किसी कार्यवाही, मांग, मामले या किसी चीज के ना होते हुए भी या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, कानूनसंगत या उसके समान किसी के द्वारा, से, माध्यम से, अधीन या उसके लिये वि वास करते हुए दावा करने पर, और विक्रेता अपने स्वयं के अच्छे अधिकार, पूर्ण भावित और सम्पूर्ण अधिकार के साथ खरीदार को उपरोक्त ढंग से विलेख निष्पादन की स्वीकृति, हस्तांतरण, बिक्री, और आश्वासन या इरादा या अभिव्यक्ति करता है।

और विक्रेता ने इस विक्रय विलेख के निष्पादन से तुरन्त पूर्व खरीदार को कथित खाली संपत्तियों पर भान्तिपूर्वक भौतिक कब्जा सौंप दिया है और खरीदार के लिए यह वैध होगा कि वह समय-समय पर और इसके बाद हर समय इसे अपने पास शांतिपूर्वक रखे, कथित संपत्तियों पर कब्जा रखे, कब्जा प्राप्त करे, उनका आनंद उठाए और जो एतदद्वारा उसे साजो सामान के साथ हस्तांतरित की गई हैं और वह चाहे तो किराया प्राप्त करे, अन्य फायदे और लाभ उठाये, और उस पर और उसके हर हिस्से का अपने स्वयं के लिये उपयोग करे और बिना किसी मुकदमे/अभियोग, वैध/कानूनी बेदखली, रुकावट, दावे और/या मांग जो कोई भी भविष्य में यदि विक्रेता या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से कानूनसंगत तरीके से या उस जैसा दावा किया जाता है, वह स्पष्ट रूप से और पूरी तरह दोषमुक्त, उसका हक बहाल किया पाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिये कथित संपत्ति को उसे खोना पड़ता है या किसी भी तरह से अन्यथा विक्रेता द्वारा अच्छे और पर्याप्त रूप से उसका बचाव किया जाएगा, उसे सभी पुरानी अन्य सम्पदा, मालकियत, शुल्कों, और/या प्रभार जो देय थे या जिनका अब भुगतान कर दिया है, जिसके लिये विक्रेता द्वारा उसके या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विधिवत या समान रूप से दावा करने या उनके द्वारा दावे के लिये खरीदार को हानि पहुंचाये बिना क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी और इसके अतिरिक्त विक्रेता या वे सभी लोग जो कानूनन या उसके समान किसी सम्पदा, स्वत्वाधिकार, या हित या कथित संपत्ति में कोई अंश का दावा करते हैं या जिनका कथित संपत्ति में कोई हिस्सा है विक्रेता या उनके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारियों को समय समय पर और एतदद्वारा किसी भी समय खरीदार के अनुरोध और लागत



Suni



21/11/24/15



[illegible]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 437645

पर सभी न्यायसंगत कार्यवाहियां, समझौते, चीजें, मामले, सम्पत्ति हस्तांतरण और कानून का आवासन जो कुछ भी है खरीदार के उपयोग के लिये कथित सम्पत्ति और उसके किसी हिस्से को एतदद्वारा स्वीकृति और हस्तांतरण के लिये वह सब उपरोक्त तरीके से करना होगा जैसा खरीदार, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों या हस्तांतरितियों या कानूनी सलाहकारों द्वारा किया जाना तर्कसंगत आवश्यक होगा।

और विक्रेता घोषित करता है कि कथित सम्पत्ति स्वयं अधिग्रहीत सम्पत्ति है और साफ, बिक्री योग्य और सभी प्रभारों से मुक्त है और यह कि केवल विक्रेता ही सम्पत्ति का एकमात्र हकदार/स्वामी है और विक्रेता खरीदार की क्षतिपूर्ति के लिये सहमत है और वह खरीदार, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रशासकों और हस्तांतरितियों की सभी कार्यवाहियों, दावों, नुकसान, अभियोगों, लागत और खर्च की भी क्षतिपूर्ति करेगा जो खरीदार द्वारा किये जा सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के दावे के परिणामस्वरूप खरीदार को खर्च या नुकसान भुगताना पड़ सकता है।

और विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित सम्पत्ति में से गुजरने के लिये किसी को भी सार्वजनिक रास्ते का अधिकार नहीं होगा या ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिसके अंतर्गत ग्रामीण या उनके मवेशी कथित सम्पत्ति के रास्ते में से पैदल या अन्यथा गुजर सकें।

और विक्रेता आगे वचन देता है निष्पादन की वर्तमान दिनांक तक कथित सम्पत्ति से संबंधित सभी देय राशियों का भुगतान किया जा चुका है और इस संबंध में पूर्व भूस्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी इत्यादि को कोई भी राशि किसी भी प्रकृति में देय नहीं है। बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख तक कर यानि आंकलन कर, इत्यादि का भी भुगतान कर दिया गया है।

यदि खरीदार को कथित सम्पत्ति का कब्जा सौंपने तक किसी प्राधिकरण को कोई राशि का भुगतान देय है तब विक्रेता उसका भुगतान करने के लिये सहमत है और यह कि उसके बाद कथित सम्पत्ति का खरीदार कब्जा प्राप्त करने के बाद सभी देय राशियों का भुगतान करने का हकदार होगा। विक्रेता आगे वचन देते हैं कि कथित सम्पत्ति साफ और बिक्रीयोग्य है और बिना किसी संदेह के हर तरह की कुर्की और प्रभार से मुक्त है और एतदद्वारा सहमत है और विक्रेता ऐसी सभी कार्यवाहियों, विलेखों, देनदारियों, कार्यवाहियों, दावों, मांगों, अभियोगों और खर्च के खिलाफ क्षतिपूर्ति करने के लिए



Sun



21/11/2015



For 1936 m 1938

TET - TEST

2102 NOV 87

A stylized handwritten signature consisting of three large, interconnected loops, resembling the letters 'V', 'V', and 'V' written in a cursive, overlapping manner. The ink is black and the background is white.

609



A circular library stamp from the University of Toronto Libraries. The text "UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES" is arranged in a circle around the perimeter. In the center, the year "1979" is printed. The stamp is slightly faded and has some ink smudges.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 437649

प्रतिबद्ध है जो किसी तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या कथित संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्राधिकरण से उत्पन्न हुई या हो सकती है।

और विक्रीत सम्पत्ति में कोई निर्माण नहीं है और पक्षगण भारत के नागरिक हैं। विक्रीत सम्पत्ति के 300 मीटर के त्रिज्या में कृषि कार्य होता है। उक्त सम्पत्ति कृषि भूमि है तथा कृषि प्रयोज्य हेतु क्रय की जा रही है। विक्रीत सम्पत्ति पर फसलें, कुआं, ट्यूब/बोर-वेल आदि नहीं है।

इस विक्री-खरीद लेनदेन के संबंध में स्टाफ ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, टाइपिंग, प्रिंटिंग और प्रतिलिपि शुल्क के साथ ही एडवोकेट फीस सहित सभी खर्च खरीदार द्वारा वहन किये गए हैं। विक्रेता ने एक बार फिर पुष्टि कर दी है कि उसे पूरी सहमत प्रतिफल राशि प्राप्त हो गई है और खरीदार से उपरोक्त संपत्तियों के एवज में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। विक्रेता ने अपनी उक्त भूमि को पूर्ण रूप से क्रेता को विक्रय करते हुए कब्जा दे दिया है इसके अतिरिक्त, विक्रेता ने हिंदी भाषा में लिखे इस विलेख के सभी खंड, नियम व शर्तें सुन या पढ़कर समझ लिया हैं। क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह इस विक्रय विलेख के द्वारा ही विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेवे, विक्रेता को कोई एतराज नहीं होगा।

संपत्ति अनुसूची / सीमाएं

खाता खतौनी सं० 14 के गाटा सं० 10 रकबा 0.084 हे० सम्पूर्ण वैधानिक अंश स्थित कैथवालिया तप्पा शिवपुर परगना बस्ती पूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती जिसे संलग्न मानचित्र में दर्शित किया गया है, जिसकी चौहद्दी निम्नानुसार हैं:

चौहद्दी :-
 पूरब:- आराजी गाटा सं० 19
 पश्चिम:- आराजी गाटा सं० 3
 उत्तर:- आराजी गाटा सं० 9
 दक्षिण:- आराजी गाटा सं० 11



गोपबहादुर



im





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DT 437650

इसको साक्षी मानकर पार्टियों ने एतद्वारा उपरोक्त बिक्री विलेख पर गवाहों के समक्ष दिनांक 26.02.18 को स्वस्थ मन, चित्त, बिना जोर दबाव के अपनी स्वीकृति के साथ हस्ताक्षर और मुहर लगाई है।

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेषित किए गए)

विक्रेता / विक्रेता के नाम)

(1) श्रीमान गंगा प्रसाद)

द्वारा मुहरबंद हस्ताक्षर प्रेषित किए गए)

क्रेता के नाम के भीतर)

एन० सी० एम० एल० बस्ती प्रा०लि०)

बजरिये उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

श्री. सुनील चौरसिया)

Pan No. AAFCN5104N Tan No. RTKN04506F



2/2/18 4:15



Signature



2/8/2018

पुष्टि विलेख 52

29/07/18
29/07/18


प्रतिफल- 1011886 स्टाम्प शुल्क- 50600 बाजारी मूल्य- 1011886 पंजीकरण शुल्क- 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग : 200880

विक्रय पत्र

श्री ७ अंग प्रसाद पुत्र श्री रामलाल

प्रतिफल- 1011886 स्टाम्प शुल्क- 50600 बाजारी मूल्य- 1011886 पंजीकरण शुल्क- 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग : 200880

श्री ७ अंग प्रसाद
पुत्र श्री रामलाल
व्यवसाय : कृषि
नाइनेम्निवासी: टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/02/2018 एवं 01:47:32 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

21/11/18

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्र० मलिक भानुपुर उपनिबंधक
उप निबंधक : भानुपुर
बस्ती

20/11/18

DT 23/07/18



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (10)

BM 720192

गवाहान-

1. पूरा नाम- आशुष दाकु
पिता का नाम- मनाज कुमर दाकु
पूरा पता-बी- 481C यूपी आयरन रौआल्ला जी डाकसेशन नई दिल्ली
मो नं- 7011833744

2. पूरा नाम- रणजी मिजा
पिता का नाम- राधा शाह मिजा 215/265 बंधारी बाजार मेरठ
पूरा पता- 9919856000

तहरीर दिनांक- 8/08/18

मसविदाकर्ता- राधा शाह मिजा, एडवाकेट



31/08/18



2360

विक्रेता: 1

211761161c

20

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

112-148160

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मि. श्री. सुभाषचंद्र बोस
— BM 720199

[illegible]

1256

24/2/20



5/10 Money for Theater
 R2 80 P. Gold No 10,
 Tagh Ent, New Delhi

70183744



7 June 1968
राम जी मिश्र 5/0
राधाबाग मिश्र
अ/5/265 अ-छा.रा
बामा के

सावित्री
सावित्री — अमिताभ
 दिना 8/02/18

8/02/18

कमलेश्वर
कमलेश्वर प्रॉपर्टीज

2/8/2018

पुष्टि विलेख 60

कमलेश्वर

बही संख्या 1718 के पृष्ठ 41 से 62 तक क्रमांक
329 पर दिनांक 08/02/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

PP/105T MB

ए० मलिक भानपुर उपनिबंधक
उप निबंधक : भानपुर

बस्ती

P 7411	11	2018
DB	11	2018
11	2018	11



N. 5-5
से 14418
20-4-18
वापस किया
5-5-18

कमलेश्वर प्रॉपर्टीज
कमलेश्वर प्रॉपर्टीज
कमलेश्वर प्रॉपर्टीज